



# JAY USHIN LIMITED

(A Joint Venture With USHIN LTD. JAPAN)

G.P. 14, HSIIDC INDL. ESTATE,  
SECTOR-18, GURGAON - 122 001  
HARYANA (INDIA)

Phone : 0124-4623400

Fax : 0124-4623403

E-mail : info@jushinindia.com

Website : www.jpjgroup.co.in

CIN : L52110DL1986PLC025118

July 06, 2020

To

BSE Limited  
Corporate Relationship Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Ring,  
Rotunda Building, P.J. Towers,  
Dalal Street, Fort, Mumbai -400001.

Scrip Code: 513252

Subject: Submission of advertisement published in newspaper

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 we are enclosing herewith copy of advertisement published on Friday July 3, 2020 in Business Standard (English Newspaper) Business Standard (Hindi Newspaper) in respect of request received from Shareholders for issue of Duplicate Share Certificate.

This is for your information and record.

Thanking You,

**Yours Faithfully**  
**Jay Ushin Limited**

  
**Amit Kithania**  
**Sr. Manager Finance &**  
**Company Secretary**  
**M.No.A42447**



**NOTICE**  
 Notice is hereby given that the following Share Certificate(s) has/have been reported as lost/misplaced and the holders of the Shares Certificate(s) have applied to the Company for the issue of Duplicate Share Certificate:  

S. No.	Name of the Shareholders	Folio No.	Certificate No.	Distinctive No(s)	No of Shares
1.	Birju K Sampal	B000746	11753	2813501-2813600	100

  
 Any person(s) who has/have any claim in respect of the said certificate(s) should lodge such claim(s) with the Share Department of the Company at JAY USHIN LIMITED, G1-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033 within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Duplicate Share Certificates to the above mentioned shareholders.  
**for Jay Ushin Limited**  
**Sd/-**  
**Amit Kithania**  
 Place: Gurugram  
 Date: 02.07.2020  
 Sr. Manager Finance & Company Secretary

**मंगलम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 101 सी, कुचन हिल, मुंबई, इलीनगर ऑफिस, मंगलम रोड, नई दिल्ली-110014  
 CIN: L74899DL1984PLC017356; ई-मेल: info@manglamengineering.com  
 वेबसाइट: www.manglamengineering.com; दूरभाष नं. 011 2634 0299/4347, 033-22482391  
**31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट**  
 (राज्य में) अधिगणित  
 (राज्य में) अधिगणित

विवरण	31.03.2020	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2019
	को समाप्त तिमाही (लेखा परीक्षा)	को समाप्त तिमाही (लेखा परीक्षा)	को समाप्त तिमाही (लेखा परीक्षा)	को समाप्त तिमाही (लेखा परीक्षा)
परिचालन से कुल आय (निष्क)	14.00	32.27	1.47	6.09
करोड़पारत साधारण कारकिर्दी से निष्क लाभ/हानि	9.0*	21.26	(2.25)	(10.88)
करोड़पारत अति हेतु निष्क लाभ/हानि (असाधारण मदों के उपरोक्त)	9.01	21.26	(2.25)	(10.88)
आयि के लिए कुल परिष्कृत आय	(3.78)	(169.76)	96.57	139.63
इकिटी शेयर पूंजी	122,500	122,500	122,500	122,500
आवृत्ति तिथि (मुद्रांतरण आकांक्षा फोडर) पिछले वर्ष के अंतिम तिमाही पर 31 मार्च को उल्लेखित	-	662.25	-	832.02
प्रायोजक/प्रबंधक (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. '00/- प्रत्येक)	0.74	1.74	(0.18)	(0.89)
अध्यक्ष	0.74	1.74	(0.18)	(0.89)
प्रायोजक/प्रबंधक (असाधारण मदों के उपरोक्त)	0.74	1.74	(0.18)	(0.89)
अध्यक्ष	0.74	1.74	(0.18)	(0.89)
कुल मुद्रांतरण आकांक्षा फोडर	0.74	1.74	(0.18)	(0.89)

(विशेष): 1) उपरोक्त विवरण सभी (पूर्णांक एवं अल्प प्रमाणांक) का आकांक्षा है। दिनांक 2015 से निराम 33 तिमाही समाप्त प्रत्येक पर ध्यान देने के अंतिम फलपत्र पर प्रतिस्पर्धी ढंग से प्रत्येक तिमाही के लेखा परीक्षा रिपोर्ट परिष्कृत हैं। विवरण का निष्कर्ष है।  
 2) उपरोक्त परिष्कृत की लेखा परीक्षा कतिपय बार सही भाषा की गई है तथा 30 जून, 2020 को अधिगणित निदेशक मंडल की बैठक में उसे अंतिम अंतिम किया गया है।  
 बॉर्ड के अह्वानकर्ता  
 कुल मंगलम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
 आर. पी. चौधरी, निदेशक/सीआरएन नं. 00076698

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**  
 सम्पत्ति वसूली प्रबंधन राखा  
 कंचन विल्डिंग, तीसरी मंजिल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूना रोड, नई दिल्ली-110 008, दूरभाष 011-25758124, ईमेल: iob1997@iob.in  
**संशोधनी**  
 बिजनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी+हिन्दी) में दिनांक 12.06.2020 को प्रकाशित ए आर्इ नोटिस, सा. नि. खाते में हमारे "निजी समझौते द्वारा बिक्री की सूचना" के संदर्भ में हमलोग यह सूचित करना चाहते हैं कि उक्त "निजी समझौते द्वारा बिक्री की सूचना" को एतद्वारा वापस ले लिया गया है।  
 स्थान: नई दिल्ली  
 तारीख: 02.07.2020  
 अधिकृत अधिकारी  
 इण्डियन ओवरसीज बैंक

**कावा सिक्सोरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 (CIN: U74899DL1992PTC049657)  
 पंजीकृत कार्यालय: वीआइपीएएस सेंटर, प्लॉट नं. 2, लोकल शांतिंग सेंटर ब्लॉक ईएफजीएच, मस्जिद मठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048  
 दूरभाष: +91 9962012542 ईमेल: statutory-india.in@ormakaba.com  
 केंद्रीय सरकार, उत्तरी क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) की अनुसूची (1) के मामले में  
 राज्या  
 कावा सिक्सोरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वीआइपीएएस सेंटर, प्लॉट नं. 2, लोकल शांतिंग सेंटर ब्लॉक ईएफजीएच, मस्जिद मठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 के मामले में  
 बाविकाकर्ता

**सूचना**  
 एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को वीआइपीएएस सेंटर, प्लॉट नं. 2, लोकल शांतिंग सेंटर ब्लॉक ईएफजीएच, मस्जिद मठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048 से लमिलनाडु राय में सं. 48/3, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी, एन. नं. 56/110/12 112/1ए, 8थ एवेन्यू, अंबूर विलेज, चंगलाडु तालुक, कोचीपुरम जिला-603 002 स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को स्थापन बनाने के लिए शुक्रवार, 22 मई, 2020 को आयोजित अधिसूचना आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के तहत कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव के प्रस्ताव को पंजीकृत करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।  
 कोई भी व्यक्ति जिन्का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, ऐसे व्यक्ति अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निदेशक/रीकरडर के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।  
 प्रस्ताव: की-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यटन भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में दर्ज करें तथा साथ में हित की प्रकृति एवं विवरण के कारण, यदि कोई है का उल्लेख करें एवं उसे हलकानामा द्वारा समर्थित कर भी भेजें तथा उक्तकी एक प्रति आवेदन कंपनी के पास भी भेजें उल्लेखित पत्र पर स्थित उक्त पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें।  
 \*वीआइपीएएस सेंटर, प्लॉट नं. 2, लोकल शांतिंग सेंटर ब्लॉक ईएफजीएच, मस्जिद मठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-II, नई दिल्ली-110048\*  
 बॉर्ड के निदेशकों के लिए तथा उनकी ओर से  
**कावा सिक्सोरिटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 रवि कन्नन  
 पदवी: निदेशक  
 सीआरएन: 01889320

स्थान: दिल्ली  
 तारीख: 03 जुलाई, 2020

**पंजाब नेशनल बैंक**  
 ...बचो करे का प्रतिक...  
**पंजाब नेशनल बैंक**  
 ...the name you can BANK upon!  
**केन्द्रीय स्टॉक कॉलेज, 8, अंदाहिल रोड सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054. फोन: 011-23920314-16**  
**निविदा सूचना (केन्द्रीय स्टॉक कॉलेज में सेंट्रल एथर कंटीशनिंग प्लांट - ठंडा करने वाले उपकरणों का प्रतिस्थापन)**  
 हमारी वेबसाइट <https://www.pnbindia.in> पर उपलब्ध/दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिच्छिन्त ठेकेदारों से मुहब्बद निविदाएं आमंत्रित हैं।  
 निविदा दरनामे/फॉर्म की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। सोलबंद निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि 24.07.2020 दोपहर 03.00 बजे तक है। तर्कनीकी बिड को 27.07.2020 को प्राप्त: 11.00 बजे खोला जाएगा। अर.एफ.पी से संबंधित सभी आगामी सूचनाएं हमारी वेबसाइट <https://www.pnbindia.in> पर उपलब्ध कर दी जाएगी।  
**प्रधानाचार्य**

**DCM SHIRAM**  
 Growing with trust  
**DCM SHIRAM LTD.**  
 Regd. Office: 2<sup>nd</sup> Floor, (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi - 110037.  
 Tel : 011-42100200  
 CIN No. : L74899DL1989PLC034923  
 E-mail : shares@dcmsriram.com Website : www.dcmsriram.com

**NOTICE**  
**(For the attention of Equity Shareholders of the Company)**  
 This notice is being published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016. The aforesaid Rules have prescribed the manner of dealing with the shares in respect of which dividend has remained unclaimed/un-paid for seven consecutive years or more. The list of such shareholders is being uploaded on the Company's website at [www.dcmsriram.com](http://www.dcmsriram.com). In compliance with the Rules, individual letters of information are also being sent to the shareholders at their latest available address who have not cashed their dividend for last 7 years i.e. since the final dividend for FY 2012-13 onwards as per the records of the Company and this notice is being issued accordingly. The concern shareholders are requested to write to the Company/Registrar and Share Transfer Agent - M/s. MCS Share Transfer Agent Ltd., F-65, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110020. Tel.: 011-41406149-52, E-mail : helpdeskdelhi@mcsharetransfer.com. For any clarification, shareholders are requested to refer individual notice sent to you. A copy of the said notice is also available on the website of the Company at [www.dcmsriram.com](http://www.dcmsriram.com). Please quote your folio/DP ID number in all correspondence.  
**For DCM Shiram Ltd. Sumeet Gambhir**  
 Company Secretary & Compliance Officer  
 Place: New Delhi  
 Date : 2.7.2020

**इण्डियन ओवरसीज बैंक**  
 कंचन विल्डिंग, तीसरी मंजिल, 2, राजेन्द्र प्लेस, पूना रोड, नई दिल्ली-110 008, दूरभाष 011-25758124, ईमेल: iob1997@iob.in  
**कच्चा सूचना**  
**(अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8(1))**  
 वित्तीय परिष्कृतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी मोजुद अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर वसूली की तिथि तक अनुबंध दर्श पर मांगी ब्याज, शेष, शुल्कों आदि सहित **07.10.2019 तक सूचना में वर्णित रु. 39,07,981/- (रुपय उनतालीस लाख सात हजार नौ सौ इक्यासी केवल)** राशि का भुगतान करने के लिए ऋणियों/गिरवीकर्ताओं/गारंटर्स श्री आदित्य शंकर और श्रीमती शालिनी (यहां के बाद 'ऋणियों' के रूप में संदर्भित) निवासी 168, दूसरी मंजिल, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075 को बुलाने के लिए मांग सूचना दिनांक **07.10.2019** जारी की थी।  
 (1) ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणियों और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर **01 जुलाई, 2020** को कब्जा ले लिया है।  
 (2) विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है व संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन मांग सूचना के जारी होने के बाद किया गया पुनर्भुगतान, यदि कोई है को छोड़कर, भुगतान की तिथि तक मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त तिथि से अनुबंध दर्श पर उसापर ब्याज और सहमति अनुसार शेष, शुल्कों आदि के सहित **07.10.2019 तक रु. 39,07,981/- (रुपय उनतालीस लाख सात हजार नौ सौ इक्यासी केवल) की राशि के लिए** इण्डियन ओवरसीज बैंक का विषय होगा। कच्चा लिए जाने की तिथि तक देय योग्य ऋण भुगतान की तिथि तक अनुबंध दर्श पर मांगी ब्याज, शेष, शुल्कों आदि के साथ रु. 41,91,530/- (रुपय इकतालीस लाख इक्यावन हजार पांच सौ तीस केवल) है।  
 (3) ऋणियों का ध्यान प्रतिभूतिकरण संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उनके पर उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (b) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

**अचल संपत्ति का विवरण**  
 आवासीय संपत्ति नं. 168, दूसरी मंजिल, ब्लॉक बी, सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली-110075 के सहित संपत्ति के सभी भाग व पार्सल, लिंथ शेज 60 वर्ग मीटर **श्रीमती शालिनी शंकर और श्री आदित्य शंकर सीएमए (सुल्यंकन रिपोर्ट दिनांक 31.01.2020 के अनुसार उत्तर में : एड्री/गली, दक्षिण में : दूसरों की संपत्ति, पूर्व में : संपत्ति नं. -167, पश्चिम में : सड़क**  
**दिनांक : 01.07.2020**  
**स्थान : नई दिल्ली**  
**प्राधिकृत अधिकारी,**  
**इण्डियन ओवरसीज बैंक**

**खबरें जो बढ़ाए आपकी तरक्की की स्पीड**

पलना पञ्चा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार के नाम देश और आपके प्रदेश की सबसे बढ़ी बिज़नेस खबरें

शेयर और जिस भाव के 5.5 पन्ने

शेयर, म्यूचुअल फंड और जिस के भाव, जिनके के 'कल के भाव' और 'हाज़िर भाव' भी

कंपनी और जिस समाचार कंपनियों, स्टार्ट-अप और जिस मार्केट पर नज़र, सोमवार से शनिवार

विविध समाचार राजनितिक और अन्य समाचार

आयाम मनेरेन, स्वास्थ्य, ब्रांड, खेल, टेक्नोलॉजी और व्यक्ति की बातें

व्यापार गोष्ठी हर सोमवार एक आर्थिक या सामाजिक मुद्दे पर पाठकों और विशेषज्ञों की राय

अन्य साप्ताहिक पृष्ठ हर सोमवार, 'स्मार्ट इन्वेस्ट' 'आपका निवेश' और 'कारोबारी कानून'

अपनी प्रति के लिए  
 Call 022 4027 5432 or  
 SMS reachbs to 57575 or  
 email us at [order@bmail.in](mailto:order@bmail.in)

**बिज़नेस स्टैंडर्ड**  
 वेबसे बिज़नेस स्टैंडर्ड, जो आपकी पाग में हो

businessstandardhindi  
 bshindi  
 hindi.business-standard.com

**RELIGARE** Health Insurance  
 Values that bind

**Religare Health Insurance Company Limited**  
**Audited Financial Results for the year ended March 31, 2020**  
 IRDAI Registration Number - 148  
 Date of Registration with IRDAI 26th April, 2012

**MISCELLANEOUS BUSINESS REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2020**

Particulars	For the Year ended 31st March, 2020	For the Year ended 31st March, 2019
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
Premiums earned (Net)	15,084,507	10,912,035
Profit/loss on sale/redemption of investments	45,751	42,071
Others		
- Contribution from the Shareholders' Account towards Excess EoM*	2,058,894	1,794,832
Interest, dividend & rent - Gross	921,570	697,718
<b>TOTAL (A)</b>	<b>18,110,722</b>	<b>13,446,657</b>
Claims incurred (Net)	8,919,448	6,026,714
Commission	(221,701)	(314,193)
Operating expenses related to Insurance business	6,606,359	5,320,847
Premium deficiency	244,562	-
<b>TOTAL (B)</b>	<b>15,548,668</b>	<b>11,033,368</b>
<b>Operating profit/(loss) from Miscellaneous business C = (A - B)</b>	<b>2,562,054</b>	<b>2,413,289</b>
<b>APPROPRIATIONS</b>		
Transfer to Shareholders' account	2,562,054	2,413,289
Transfer to catastrophe reserve	-	-
Transfer to other reserves	-	-
<b>TOTAL (C)</b>	<b>2,562,054</b>	<b>2,413,289</b>

\* Expense in excess of the limit allowed as per regulation on expenses of management charged to shareholder's account.

**BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2020**

Particulars	As at 31st March, 2020	As at 31st March, 2019
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
<b>SOURCES OF FUNDS</b>		
Share Capital	7,279,491	6,885,499
Share Application Money Pending Allotment	2,253	-
Reserves And Surplus	554,856	139,887
Fair Value Change Account - Shareholders	(26,789)	(16,550)
Fair Value Change Account - Policyholders	-	-
Borrowings	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,809,811</b>	<b>7,008,836</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS</b>		
<b>Investments</b>		
- Shareholders	5,416,812	2,784,361
- Policyholders	12,340,465	10,232,217
Loans	-	-
Fixed Assets	545,211	564,068
<b>CURRENT ASSETS</b>		
Cash and Bank Balances	558,574	402,372
Advances and Other Assets	1,141,311	1,734,903
<b>Sub-Total (A)</b>	<b>1,699,885</b>	<b>2,137,275</b>
Current Liabilities	6,811,872	5,440,743
Provisions	7,336,269	5,880,460
<b>Sub-Total (B)</b>	<b>14,148,141</b>	<b>11,321,203</b>
<b>Net Current Assets (C) = (A - B)</b>	<b>(12,448,256)</b>	<b>(9,183,928)</b>
Miscellaneous Expenditure (To The Extent Not Written Off or Adjusted)	-	-
Debit Balance In Profit And Loss Account	1,955,579	2,612,119
<b>TOTAL</b>	<b>7,809,811</b>	<b>7,008,836</b>

**PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2020**

Particulars	For the Year ended 31st March, 2020	For the Year ended 31st March, 2019
	(₹ in '000)	(₹ in '000)
<b>OPERATING PROFIT/(LOSS)</b>		
(a) Fire Insurance	-	-
(b) Marine Insurance	-	-
(c) Miscellaneous Insurance	2,562,054	2,413,289
<b>INCOME FROM INVESTMENTS</b>		
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	219,060	212,840
(b) Profit on sale of investments	3,104	114
Less: Loss on sale of investments	-	-
<b>OTHER INCOME</b>		
(a) Provision no longer required written back	3,501	-
(b) Liability written back	2,255	-
(c) Other	-	9
<b>TOTAL (A)</b>	<b>2,789,974</b>	<b>2,626,252</b>
<b>PROVISIONS (Other than taxation)</b>		
(a) For diminution in the value of investments	-	-
(b) For doubtful debts	-	97,907
(c) Others	-	-
<b>OTHER EXPENSES</b>		
(a) Expenses other than those related to Insurance Business	56,474	168,863
(b) Bad debts written off	6,435	-
(c) Foreign Exchange Loss/(Gain)	5,649	(4,525)
(d) Corporate Social Responsibility (CSR) Expenses	3,369	-
(e) Sandbox related expenses	246	-
(f) Contribution to the Policyholders' Account towards Excess EoM*	2,058,894	1,794,832
<b>TOTAL (B)</b>	<b>2,131,067</b>	<b>2,057,076</b>
<b>Profit/(Loss) Before Tax</b>	<b>658,907</b>	<b>569,176</b>
Provision for Taxation	-	3,422
Less: Mat Credit reversal / (Entitlement)	3,422	(3,422)
Tax relating to earlier years	(1,055)	-
<b>Profit/(Loss) After Tax</b>	<b>656,540</b>	<b>569,176</b>
<b>APPROPRIATIONS</b>		
(a) Interim dividends paid during the year	-	-
(b) Proposed final dividend	-	-
(c) Dividend distribution tax	-	-
(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts	-	-
Balance of profit/(loss) brought forward from last year/period	(2,612,119)	(3,181,295)
<b>Balance carried forward to Balance Sheet</b>	<b>(1,955,579)</b>	<b>(2,612,119)</b>

\* Expense in excess of the limit allowed as per regulation on expenses of management charged to shareholder's account.

**ACCOUNTING RATIOS PRESCRIBED BY THE IRDAI** (in times / %)

Performance Ratios	For the Year ended 31st March, 2020	For the Year ended 31st March, 2019
Gross Premium Growth Rate - Health	33%	70%
Gross Premium Growth Rate - PA	9%	39%
Gross Premium Growth Rate - Total	31%	67%
Gross Direct Premium to Net Worth	4.08	4.15
Growth Rate of Net Worth	33%	59%
Net Retention Ratio - Health	66%	68%
Net Retention Ratio - PA	94%	82%
Net Retention Ratio - Total	67%	69%
Net Commission Ratio - Health	-3%	-3%
Net Commission Ratio - PA	14%	5%
Net Commission Ratio - Total	-1%	-2%
Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	38%	41%
Expense of Management to Net Written Premium Ratio	56%	58%
Net Incurred Claims to Net Earned Premium	59%	55%
Combined Ratio	98%	95%
Technical Reserves to Net Premium Ratio	0.60	0.58
Underwriting Balance Ratio	-3%	-1%
Operating Profit Ratio	3%	6%
Liquid Assets to Liabilities Ratio	0.39	0.35
Net Earning Ratio	4%	4%
Return on Net Worth ratio	11%	13%
Available Solvency Margin Ratio to Required Solvency Margin Ratio	1.55	1.56
NPA Ratio	NA	NA

**Religare Health Insurance Company Limited**  
 Registered Office: 5th Floor, 19 Chawla House, Nehru Place, New Delhi-110019  
 Corporate Office: Vipul Tech Square, Tower C, 3rd Floor, Golf Course Road, Sec-43, Gurugram-122009 (Haryana) Website: [www.religarehealthinsurance.com](http://www.religarehealthinsurance.com)  
 E-mail: customerfirst@religarehealthinsurance.com  
 Call us: 1800-102-4488/1800-102-6655  
 Insurance is a subject matter of solicitation. UAN: 20073725  
 CIN: U66000DL2007PLC161503 IRDAI Regd. No. 148

For and on behalf of the Board of Directors  
 Sd/-  
 Anuj Gulati  
 MD & CEO  
 Place: Gurugram

The audited results for the year ended on March 31st, 2020, was reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on June 18th, 2020, in terms of circular on Public Disclosure by Insurers dated January 28, 2010 issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India. Ratios are computed in accordance with and as per definition given in the Master circular of IRDAI on Preparation of Financial Statements dated October 2012 and subsequent clarification thereon dated July 3, 2013.

First pvt train to chug in by 2023

SHINE JACOB New Delhi, 2 July

India will see its first privately operated train running by April 2023 and the bidding process for this will be completed by April 2021, a top Indian Railways executive said on Thursday.

The national transporter had invited requests for qualifications (RFQ) from private players on Wednesday to operate 151 trains covering 109 routes that might see investments of ₹30,000 crore. "We intend to start operation of the first private operated train in India by April 2023," said V K Yadav, chairman of the Railway Board.

A big challenge before the Indian Railways will be the speed limit of 160 km per hour (kmph) set for these trains, because at present there is only one section that is fit to run trains at that speed. This year, the maximum speed limit on the Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata routes was increased from 110 kmph to 130 kmph.

"We have already sanctioned a plan to improve the speed of trains on all our routes in the next five to 10 years. For the Delhi-Mumbai and Delhi-Kolkata routes, a plan was cleared to improve speed to 160 kmph at an investment of



ON FAST TRACK Private players called to meet demand

- 8.4 bn Passenger traffic in 2019
■ 13 bn Expected number of passengers by 2030
■ 18 bn Expected passenger traffic by 2040
■ 160 kmph Expected speed of private trains
■ 151 No. of planned private trains
■ 2,800 Current number of mail/express trains

₹15,000 crore. The rest of the Golden Quadrilateral and diagonal will be fit for 130 kmph very soon," he added.

The Railways indicated that the plan to rope in private players came after an estimate showed that passenger traffic is expected to grow 55 per cent by 2030. In 2019, the Railways saw 8.4 billion passengers, which is expected to climb to 13 billion by 2030 and 18 billion by 2040.

Rlys freight traffic down 21%, earnings drop 31%

SHINE JACOB New Delhi, 2 July

The Indian Railways' freight traffic dropped 21 per cent during the first quarter of 2020-21 (FY21) to 241 million tonnes (mt) owing to the lockdown and slowing economic activity.

Its earnings from freight also saw 31 per cent fall to ₹22,266 crore for the April-June period. In June, the national transporter handled 93 mt freight, a fall of 8 per cent over the same month in 2019-20 (FY20). The freight earnings for the month also declined 18 per cent to ₹8,826 crore.

Railway Board Chairman V K Yadav said freight loading had substantially picked up in June, which was a sign of an increase in economic activity. "In June, we are close to 91 per cent of regular loading, compared to the same month a year ago. Movement of cement, coal, fertiliser, and steel is picking up," he said.

Insolvency professionals' cases may be capped

RUCHIKA CHITRAVANSHI New Delhi, 2 July

The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has floated a discussion paper seeking comments from the industry on this matter by July 25. "The restriction will put a check on undesirable instances of delay and dis-

turbance to the processes led by IPs," the discussion paper said. IBBI has devised a matrix to decide the number of assignments an IP can undertake. For instance, an IP cannot take more than one insolvency case where the turnover of corporate debtor is more than ₹50,000 crore.

The person can undertake two assignments if they both have a turnover less than ₹10,000 crore. The proposal limits the maximum cases to five, provided the turnover of the corporate debtor in each is less than ₹1,000 crore.

BAJAJ FINANCE LIMITED Corporate office: 3rd Floor, Bajaj Finserv Panchshil Tech Park Viman Nagar, Pune Maharashtra, India -411014, Maharashtra. Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

BAJAJ FINANCE LIMITED Corporate office: 3rd Floor, Bajaj Finserv Panchshil Tech Park Viman Nagar, Pune Maharashtra, India -411014, Maharashtra. Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

INDIAN OVERSEAS BANK Asset Recovery Management Branch RACHNA BUILDING, 3rd floor, 2, Rajendra Place, Pusa Road, New Delhi - 110 008, Phone 011-25758124, Email: iob1997@iob.in

BAJAJ FINANCE LIMITED Corporate office: 3rd Floor, Bajaj Finserv Panchshil Tech Park Viman Nagar, Pune Maharashtra, India -411014, Maharashtra. Demand Notice Under Section 13 (2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

IDBI BANK LTD., NMG, 1st Floor, Videocon Tower, E-1, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, Ph.: 011-6608 3023, 0116608 3108.

NOTICE UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (the SARFAESI Act) Name of the Borrower Name of the Mortgagees

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. (A Government of India Undertaking - "Mini Ratna" Company) An ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 Certified Company

JAY USHIN LIMITED CIN : L52110DL1986PLC025118 G1-48, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110033.

Table with 5 columns: S. NO, Name of Borrower(s) (A), Particulars of Mortgaged property/ (ies) (B), Date Of NPA (C), Outstanding Amount (Rs. (D)). Contains multiple entries for various borrowers and properties.

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST Under Regulation 36A (1) of the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. Table with 23 rows of requirements and dates.